

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
अध्याय-1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1-7
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	7-8
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	8-9
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	9
रिफंड मामले	1.5	10
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	10
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	10-13
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	13
लेखापरीक्षा योजना	1.9	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	14
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	14
अध्याय-2		
राज्य आबकारी		
कर प्रबंधन	2.1 (क)	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1 (ख)	15
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंधन	2.2 (क)	16
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2 (ख)	16-17
वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	17-43
अंतिम स्टॉक पर कर का अनुद्ग्रहण	2.4	44-45
कर की कम दर लागू करने/कर उद्ग्रहित न करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.5	45
अवैध 'सी' फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति के कारण कर के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप डीलरों को अनुचित लाभ	2.6	46-47
अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ	2.7	47-48
अयोग्य डीलरों को जारी किए गए फॉर्म वैट-डी1 के विरुद्ध बिक्री की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.8	48-49
ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.9	49-50

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-3		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंधन	3.1	51
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	51-52
अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	3.3	52-53
सहयोग करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.4	53-54
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण और बंधक विलेख का गलत वर्गीकरण	3.5	54-55
गैर-वास्तविक डिक्रियों को वास्तविक मानते हुए स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	3.6	56-57
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट	3.7	57
कृषि भूमि के विनिमय पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	3.8	58
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	3.9	59
प्राइम खसरा भूमि पर नॉन-प्राइम दर लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.10	60
विक्रय विलेखों को हस्तांतरण विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.11	61-62
बिक्री करार के संदर्भ में अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	3.12	62
पट्टा विलेखों पर वार्षिक औसत किराए की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	3.13	63
मुआवजे की राशि से खरीदी गई अचल संपत्तियों के मामले में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट	3.14	64
अध्याय-4		
वाहनों पर कर		
कर प्रबंधन	4.1	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	65-66
सरकारी प्राप्तियों का संदिग्ध दुर्विनियोग	4.3	66-68
मालवाहक वाहनों के मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली	4.4	68-69
मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली	4.5	69-71

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2025 तक राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.5	73
1.2	31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों का विभागवार विवरण	1.7.5	74
1.3	आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	75
1.4	आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के स्वीकृत मामलों की वसूली	1.8.2	76
2.1	विस्तृत लेखापरीक्षा करदाताओं की सूची	2.3.5	77
2.2	अभिलेख प्रस्तुत न करने के कुल मामले	2.3.7.1	78-79
2.3	कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर छूट/रियायती दरों का गलत लाभ उठाना	2.3.7.2 (क)	80
2.4	प्राप्त अग्रिम पर भुगतान न की गई कर देयता	2.3.7.2 (ख) (i)	81-82
2.5	करयोग्य टर्नओवर को छिपाने के कारण भुगतान न की गई कर देयता	2.3.7.2 (ख) (ii)	83
2.6	अचल परिसंपत्तियों पर भुगतान न की गई कर देयता	2.3.7.2 (ख) (iii)	84
2.7	आर.सी.एम. के तहत कानूनी और पेशेवर प्रभारों/रॉयल्टी/माल ढुलाई प्रभारों पर कर का भुगतान न करना/कम भुगतान करना	2.3.7.2 (ग)	85
2.8	आई.टी.सी. का रिवर्सल न करना/कम रिवर्सल करना	2.3.7.3 (क)	86
2.9	पंजीकरण प्रमाण पत्र में नए एस.ए.सी. कोड की घोषणा न करना	2.3.8.1	87
2.10	ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान	2.3.8.2	88-90
2.11	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	91
2.12	जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-8डी में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	92-93
2.13	जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम-6जे में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	94-96
2.14	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 (कॉलम 8ए) में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना	2.3.8.3	97-98

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.15	रिटर्न (जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा	2.3.8.3	99-100
2.16	आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान	2.3.8.3	101
2.17	संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा मामलों की सूची	2.3.9.1	102
2.18	अभिलेख की संवीक्षा	2.3.9.1 (i)	103
2.19	कार्यात्मक लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का चयन	2.3.9.1 (i)	104
2.20	करयोग्य टर्नओवर के छिपाव के कारण कर का कम उद्ग्रहण	2.3.9.1 (ii) (क)	105
2.21	प्राप्त अग्रिमों पर कर का अनुद्ग्रहण	2.3.9.1 (ii) (ख)	106
2.22	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर/7जी में असमायोजित टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर	2.3.9.1 (ii) (ग)	107
2.23	डी.आर.सी. 01 और डी.आर.सी. 05 के मध्य अंतर	2.3.9.1 (ii) (घ)	108
2.24	ब्याज का कम उद्ग्रहण	2.3.9.1 (ii) (ङ)	109
2.25	अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया	2.3.9.1 (ii) (च)	110
2.26	रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की गई	2.3.9.2	111
2.27	रिफंड दावों के प्रसंस्करण और भुगतान में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र	2.3.9.3	112
2.28	अभिलेखों का रखरखाव	2.3.9.4	113